



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 कार्तिक, 1941 (श०)

---

संख्या- 913 राँची, शनिवार, 16 नवम्बर, 2019 (ई०)

---

#### मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

-----

#### अधिसूचना

16 नवम्बर, 2019

संख्या-01/नि०(वि०स०)-16-14/2019/37--- यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 5 जनवरी, 2020 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार झारखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
19-कोडरमा
20-बड़काठा
21-बरही
22-बड़कागांव
23-रामगढ़
24-माण्डू
25-हजारीबाग
26-सिमरिया (अ.जा.)
28-धनवार
34-गोमिया
35-बेरमो
50-ईचागढ़
61-सिल्ली
62-खिजरी (अ.ज.जा.)
63-रांची
64-हटिया
65-कांके (अ.जा.)

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम

डॉ. डी. के. तिवारी,  
झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

महादेव धान,

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव।

-----

## CABINET (ELECTION) DEPARTMENT

-----

### NOTIFICATION

16 November, 2019

**No. 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-14/2019/37 ---** WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Jharkhand, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the 5<sup>th</sup> January, 2020 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Jharkhand;

NOW, THEREFORE, as recommended by Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Jharkhand is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Jharkhand specified in the Table Below to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

**TABLE**

<b>NUMBER AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCIES</b>
19-Kodarma
20-Barkatha
21-Barhi
22-Barkagaon
23-Ramgarh
24-Mandu
25-Hazaribagh
26-Simaria (SC)
28-Dhanwar
34-Gomia
35-Bermo
50-Ichagarh
61-Silli
62-Khijri (ST)
63-Ranchi
64-Hatia
65-Kanke (SC)

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,

**Dr. D. K. TIWARI,**  
CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT  
OF JHARKHAND

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (शक)

**संख्या- 464/पूर्व अनु०-1/झार०वि०स०/2019 :-** यतः, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 16 नवम्बर, 2019 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	25 नवम्बर, 2019 (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	26 नवम्बर, 2019 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	28 नवम्बर, 2019 (बृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	12 दिसम्बर, 2019 (बृहस्पतिवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	26 दिसम्बर, 2019 (बृहस्पतिवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
19-कोडरमा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
<b>20-बड़काठा</b>	<b>प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे</b>
21-बरही	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
22-बड़कागांव	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
<b>23-रामगढ़</b>	<b>प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे</b>
24-माण्डू	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
25-हजारीबाग	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
26-सिमरिया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
28-धनवार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
34-गोमिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
35-बेरमो	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
50-ईचागढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
61-सिल्ली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
62-खिजरी (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे
<b>63-रांची</b>	<b>प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे</b>
<b>64-हटिया</b>	<b>प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे</b>
<b>65-कांके (अ.जा.)</b>	<b>प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे</b>

आदेश से,

अरविन्द आनन्द,

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**महादेव धान,**

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

16<sup>th</sup> November, 2019/25 Kartika, 1941 (Saka)

**NO. 464/ES-1/JKD-LA/2019:-** WHEREAS, the Governor of the State of Jharkhand has, by a notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official gazette of the State on 16<sup>th</sup> November, 2019, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Jharkhand, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder ;

**NOW, THEREFORE,** in pursuance of sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table:-

a)	The 25 <sup>th</sup> November, 2019 (Monday)	As the last date for making nominations;
b)	The 26 <sup>th</sup> November, 2019 (Tuesday)	As the date for scrutiny of nominations;
c)	The 28 <sup>th</sup> November, 2019 (Thursday)	As the last date for withdrawal of candidatures;
d)	The 12 <sup>th</sup> December, 2019 (Thursday)	As the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
e)	The 26 <sup>th</sup> December, 2019 (Thursday)	As the date before which the election shall be completed

and,

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table :-

**TABLE**

Number and Name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
19-Kodarma	7.00 AM to 3.00 PM
<b>20-Barkatha</b>	<b>7.00 AM to 5.00 PM</b>
21-Barhi	7.00 AM to 3.00 PM
22-Barkagaon	7.00 AM to 3.00 PM
<b>23-Ramgarh</b>	<b>7.00 AM to 5.00 PM</b>
24-Mandu	7.00 AM to 3.00 PM
25-Hazaribagh	7.00 AM to 3.00 PM
26-Simaria (SC)	7.00 AM to 3.00 PM
28-Dhanwar	7.00 AM to 3.00 PM
34-Gomia	7.00 AM to 3.00 PM
35-Bermo	7.00 AM to 3.00 PM
50-Ichagarh	7.00 AM to 3.00 PM
61-Silli	7.00 AM to 3.00 PM
62-Khijri (ST)	7.00 AM to 3.00 PM
<b>63-Ranchi</b>	<b>7.00 AM to 5.00 PM</b>
<b>64-Hatia</b>	<b>7.00 AM to 5.00 PM</b>
<b>65-Kanke (SC)</b>	<b>7.00 AM to 5.00 PM</b>

By Order,

**ARVIND ANAND,**  
SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

-----